



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 775]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 29, 2002/भाद्र 7, 1924

No. 775]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2002/BHADRA 7, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अगस्त, 2002

का.आ. 922(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, शिवलीला चेम्बर, '752' सदाशिव पेठ, आर.बी. कुमठेकर मार्ग, पुणे-411 030 द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 2 मितम्बर, 2002 को प्रारम्भ होने वाले और 1 मितम्बर, 2003 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अधधीन प्रदान करता है।

1. 'एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि मार्च 2002 के दौरान किए गए निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित संप्रेशर्ण/कमियों/सुझावों की अनुपालना की जाती है और उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित समस्त अनियमितताओं तथा कमियों का सुधार अनिवार्यतः 31 अक्टूबर, 2002 तक कर लिया जायेगा।'

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/16723/02]

जानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th August, 2002

S.O. 922(E).—Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by the Pune Stock Exchange Limited, Shivleela Chambers, '752' Sadashiv Peth, R.B. Kumbhakar Marg, Pune-411 030, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for one year commencing on the 2nd day of September, 2002 and ending on the 1st day of September, 2003 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter.

1 'The exchange shall ensure that observations/ deficiencies/suggestions made in the inspection report relating to the inspection conducted during March 2002 are complied with and all irregularities and deficiencies mentioned in the said inspection report shall be rectified latest by October 31, 2002.'

[F. No. SEBI/LE/16723/02]

G N BAJPAI, Chairman

